

अध्याय - 3 | धन और बैंकिंग

QUIZ-01

1. आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है?

- A. राजस्व का स्रोत
B. विनिमय का माध्यम
C. श्रम का भंडारण
D. संपत्ति का माप (B)

व्याख्या: मुद्रा लेनदेन को एक सामान्य रूप से स्वीकृत विनिमय माध्यम के रूप में सुगम बनाती है।

2. निम्नलिखित में से कौन-सा मुद्रा का कार्य नहीं है?

- A. लेखा की इकाई
B. मूल्य का भंडारण
C. विनिमय का माध्यम
D. उत्पादन का साधन (D)

व्याख्या: मुद्रा को सीधे उत्पादन के साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता।

3. CRR का पूर्ण रूप क्या है?

- A. सेंट्रल रिजर्व रेवेन्यू
B. कैश रिजर्व रेशियो
C. कॉमर्शियल रेट ऑफ रिटर्न
D. क्रेडिट रेगुलेशन रेशियो (B)

व्याख्या: CRR का अर्थ है कैश रिजर्व रेशियो – यह वह प्रतिशत है जो बैंकों को नकद भंडार के रूप में रखना होता है।

4. 'लिक्विडिटी ट्रेप' को सर्वश्रेष्ठ रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है?

- A. अर्थव्यवस्था में उच्च CRR
B. मुद्रास्फीति में वृद्धि
C. जब ब्याज दरें कम होती हैं और लोग नकद संचित करते हैं
D. जब बैंक ऋण देना बंद कर देते हैं (C)

व्याख्या: लिक्विडिटी ट्रेप में ब्याज दरें इतनी कम होती हैं कि लोग निवेश की बजाय नकद रखना पसंद करते हैं।

5. 'हाई पावर्ड मनी' से क्या तात्पर्य है?

- A. केवल सरकार द्वारा प्रयुक्त मुद्रा
B. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी की गई मुद्रा
C. केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा और भंडार
D. केवल डिजिटल मुद्रा (C)

व्याख्या: 'हाई पावर्ड मनी' वह मुद्रा है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया हो और जो जनता और बैंकों द्वारा धारण की जाती है।

6. क्रेडिट सृजन के संदर्भ में 'मनी मल्टीप्लायर' क्या है?

- A. बैंकिंग में कुल ब्याज दर
B. कुल जमा का भंडारों से अनुपात
C. GDP में कुल मुद्रा आपूर्ति
D. नकद से मुद्रा अनुपात (B)

व्याख्या: मनी मल्टीप्लायर = कुल जमा / भंडार; यह दर्शाता है कि भंडार से कितना धन सृजित होता है।

7. निम्न में से कौन मौद्रिक नीति की गुणात्मक विधि है?

- A. बैंक दर
B. CRR
C. ओपन मार्केट ऑपरेशंस
D. नैतिक अनुनय (D)

व्याख्या: नैतिक अनुनय RBI द्वारा बैंकों को प्रभावित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गुणात्मक विधि है।

8. जब RBI रेपो दर बढ़ाता है तो क्या होता है?

- A. उधारी बढ़ती है
B. RBI से उधार लेना महंगा हो जाता है
C. मुद्रास्फीति बढ़ती है
D. अधिक मुद्रा सृजित होती है (B)

व्याख्या: जब RBI रेपो दर बढ़ाता है, तो वाणिज्यिक बैंकों के लिए RBI से उधार लेना महंगा हो जाता है।

9. करेंसी नोट और सिक्कों को किस प्रकार की मुद्रा कहा जाता है?

- A. सट्टा मुद्रा
B. समय जमा
C. फिएट मनी
D. तरल बॉन्ड (C)

व्याख्या: करेंसी नोट और सिक्के फिएट मनी होते हैं क्योंकि उनकी कीमत सरकारी गारंटी पर आधारित होती है।

10. मुद्रा आपूर्ति में M1 में क्या शामिल होता है?

- A. केवल समय जमा
B. मुद्रा और मांग जमा
C. मुद्रा और सावधि जमा
D. बॉन्ड और ट्रेजरी बिल (B)

व्याख्या: M1 में जनता के पास मुद्रा और बैंकों के पास मांग जमा शामिल होते हैं।